



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 282]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 13, 2019/भाद्र 22, 1941

No. 282]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 13, 2019/BHADRA 22, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2019

सं. 32/2015-2020

विशय: उद्गम प्रमाण पत्र (गैर-तरजीही) जारी करने के लिए प्राधिकृत मैसर्स एक्सपो ओवरसीज आन्ट्रप्रनर एसोसिएशन (ईओईए) इंदौर, मध्यप्रदेश को परिशिष्ट 2ड. के अंतर्गत शामिल करने के संबंध में।

फा.सं. 01/93/180/27/एम-19/पीसी-II(ख)/ई-15959.—विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा उद्गम प्रमाण पत्र (गैर-तरजीही) जारी करने के लिए मैसर्स एक्सपो ओवरसीज आन्ट्रप्रनर एसोसिएशन (ईओईए) को प्राधिकृत करते हैं:

मैसर्स एक्सपो ओवरसीज आन्ट्रप्रनर एसोसिएशन (ईओईए),

622, सुदामा नगर

नरेन्द्र तिवारी मार्ग

इंदौर, मध्य प्रदेश

मो. न. 8349662662, 9827592095

2. तदनुसार, विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्र के परिशिष्ट 2ड. [उद्गम प्रमाण पत्र (गैर-तरजीही) जारी करने के लिए प्राधिकृत एजेंसियों की सूची] की क्रम संख्या 06 (इंदौर) मध्य प्रदेश में उपर्युक्त एजेंसी के नाम को शामिल किया जाता है।

3. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

4759 GI/2019

(1)

मैसर्स एक्सपो ओवरसीज आन्ट्रप्रनर एसोसिएशन (ईओईए) इंदौर, मध्य प्रदेश को उद्गम प्रमाण पत्र (गैर-तरजीही) जारी करने के लिए विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के परिशिष्ट 2ड. के तहत शामिल किया गया है।

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन सचिव,

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

**(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)**

**PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 13th September, 2019

**No. 32/2015-2020**

**Subject: Enlistment under Appendix 2E of M/s Expo Overseas Entrepreneurs Association (EOEA) Indore Madhya Pradesh - Authorized to issue Certificate of Origin (Non-Preferential) – reg.**

**F.No. 01/93/180/27/AM-19/PC-II(B)/E-15959.**—In exercise of powers conferred under paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby authorize M/s Expo Overseas Entrepreneurs Association (EOEA) to issue Certificate of Origin (Non-Preferential):

M/s Expo Overseas Entrepreneurs Association (EOEA),

622, Sudama Nager,

Narendra Tiwari Marg,

Indore, Madhya Pradesh,

M.No. 8349662662, 9827592095

2. Accordingly, name of the above agency is added at Serial No.06 (Indore) Madhya Pradesh of Appendix 2E [List of Agencies Authorized to issue Certificate of Origin (Non-Preferential)] to Appendices & Aayat Niryat Forms of FTP 2015-2020.

3. Effect of this Public Notice:

M/s Expo Overseas Entrepreneurs Association (EOEA), Indore, Madhya Pradesh is enlisted under Appendix 2E of FTP, 2015-2020 for issuing Certificate of Origin (Non-Preferential).

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Secy.